

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1

मोबाइल नं०- 8986915655 ईमेल- ee.kishanganj.rwd2@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक- 1536 (अनु०) किशनगंज दिनांक- 03/08/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल किशनगंज-1

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ोदा
शाखा- आरा।

विषय :- **Lalu Hightech Works Pvt. Ltd.** द्वारा P.S. & A.P.S की राशि के लिए जमा किया गया FD का सत्यापन एवं Proper Pledge का सत्यापन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक **Lalu Hightech Works Pvt. Ltd.** द्वारा P.S. & A.P.S की राशि के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया गया FD आपके शाखा से निर्गत है। निर्गत FD को कितने तारीख को Pledge किया गया है, Exact किसके नाम से Pledge किया गया है एवं FD Original है या नहीं? इसकी सत्यता की जांच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। FD की विवरणी निम्नवत है:-

S.N	FD A/C No.	Amount (in Lac)	Date of issue	Maturity Date
1	12040300035129	10.80500	03.08.2024	03.08.2025
2	12040300035130	29.92000	03.08.2024	03.08.2025
3	12040300033622	9.83000	03.01.2024	03.01.2025

अनु०- यथोक्त।



विश्वासभाजन

(Signature)

Lalu Hitech Works Pvt. Ltd.

(Signature)
Director

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1

(Signature)
3.8.2024

पता:- रुईधासा मैदान के नजदीक किशनगंज, जिला-किशनगंज. पिन कोड-855107



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

LALU HITECH WORKS PVT LTD		खाता क्र./ FD A/c No	12040300035130
WARD NO 4 SASTA BAZAR NEAR MAHILA COLLEGE BLOCK MORE JAGDISHPUR 802158 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0308242528
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	J9B073467
		संबंधित खाता / Linked Operative a/c	12040200000863
		शाखा का नाम/Branch Name	ARRAHBIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AADCL5348L		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	ANY ONE DIRECTOR		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याज दर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
2992000	03-08-2024	6.85	12 Months 0 Days	03-08-2025	3202277

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। - स्वतः नवीकरण कर्तव्यः 1. यदि अवधि अनुदान न दिया हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। 2. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इसकी ही अवधि के लिए किया जाएगा। - फॉर्म 15 जी और 15 एच लिखित निवासी खातों के लिए है। - निवासी व्यक्तिगत ब्राह्मण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नव 15 जी/ 15 एच 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। - फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। - परिपक्वता आहरण कर्तव्यः 1. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्रपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् यदि प्रत्येक वर्ष के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। 2. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्रपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् यदि प्रत्येक वर्ष के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा, रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समग्र पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिनों पहले तक की सूचना दी जानी चाहिए। - नद प्रतिपक्ष प्रथम के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	- Rate of interest is in percentage per annum. - Automatic Renewal Clause: 1) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 2) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. - Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. - A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident Individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. - Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). - Premature Withdrawal Clause: 1) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. 2) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. - In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Lalu Hitech Works Pvt. Ltd.

21/21-3/21/21
Director



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

LALU HITECH WORKS PVT LTD. WARD NO 4 SASTA BAZAR NEAR MAHILA COLLEGE BLOCK MORE JAGDISHPUR 802158 INDIA		खाता क्र./ FD A/c No.: 1204030003129 सावधि सूचना क्र./ FD Advice No: FDR0308242114 कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No: J9B073467 व्यवहार खाता / Linked Operative a/c: 12040200000863 शाखा का नाम/Branch Name: ARRAHBHAR
योजना / Scheme: FIXED DEPOSIT - RIRD(RES) नामांकन / Nomination: N नामित पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.: पैन नंबर / PAN No.: AADCL5348L परिचालन पद्धति / Mode of Operation: ANY ONE DIRECTOR लियन चिह्नित / Lien Marked: N	संयुक्त धारक / Joint Holder (s): अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	



जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
1080500	03-08-2024	6.85	12 Months 0 Days	03-08-2025	1156437

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है. - स्वतः नवीकरण स्वतः. - यदि अल्पकालीन अवधि के लिए कोई भी जमा राशि का नवीकरण देय तिथि पर प्रयोजित व्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. - कोई निवेश न किए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई भी जमा राशि का नवीकरण देय तिथि पर प्रयोजित व्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. - फॉर्म 15 जी और 15एच निर्धारित तिथि तक खाली रखे जाएंगे. - निवासी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दसवीं निपूणता सीमा पूरा होने से पूर्व एक वर्ष 15 जी 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए. अन्यथा सोड पर कर कटौती की जाएगी. - फॉर्म एच केवल श्रेष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा. - परिपक्वता आहरण स्वतः. - रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्र पूर्व सूचना पर 1% बंड का प्रवर्धन है अर्थात् देवी जमा राशि के अंतर्गत होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा. - रु. 1 करोड़ और इसके अधिक की जमा राशियों को समग्र पूर्व सूचना पर 1.5% बंड का प्रवर्धन है अर्थात् देवी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा. रु. 1 करोड़ और इसके अधिक को जमा राशि के समग्र पूर्व सूचना पर आहरण के लिए अन्य दस्तावेज के अतिरिक्त कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए. - निरादिह प्रथा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है.	- Rate of Interest is in percentage per annum. - Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. - Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. - A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. - Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) - Premature Withdrawal Clause: i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. - In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Lalu Hitech Works Pvt. Ltd.

(Signature)
Director